



Corporate

Ind-Swift Limited

781, Industrial Area, Phase-II,
Chandigarh - 160 002 INDIA
Ph. : 0172- 4680800, 2638781
Fax : 0172-2652242
E-mail : corporate@indswift.com
CIN No. : L24230CH1986PLC006897

Ref. :ISL:CH:2024

Date: February 16, 2024

The President,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001

The Vice President,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/2, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051

BSE Scrip Code: 524652

NSE Symbol: INDSWFTLTD

Sub: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Respected Sir/Ma'am

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper advertisement informing about Postal Ballot Notice and e-Voting information published in Financial Express and Jansatta dated 16th February 2024.

The same are also available on the Company's website at www.indswiftltd.com.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You.

For IND SWIFT LIMITED

**GINNY UPPAL
COMPANY SECRETARY**

Encl.- Newspaper Publications



Ind-Swift

Ind-Swift Ltd. Regd. Off.: 781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002. CIN No. L24230CH1986PLC006897

NOTICE OF POSTAL BALLOT Notice is hereby given to the Members of Ind-Swift Limited ('the Company'), pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act')

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

Process for those members whose e-mail IDs are not registered with the DP/RTA for procuring User ID and password and registration of email IDs for e-voting for the resolutions set out in the Postal ballot notice-

In case of any query/grievance(s) connected with the electronic voting, members may please refer to the Frequently Asked Question (FAQ) and e-voting manual available at www.evotingindia.com

SOUTH INDIAN BANK Regional Office - Delhi The South Indian Bank Ltd 3rd Floor, Plot No.21, 21/1, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -110005

Ref: DEL/CRD/SAR/46/2023-24 Date: 14.02.2024 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

(1) M/s. Mahaluzmi Traders represented by its Proprietor Mr. Vivek Kumar Kwatra with address at Shop no 29, 29/1 Floor, Maheshpur, Panchkula Dist., Haryana 134112

(3) Shalini Kwatra W/o Vivek Kumar Kwatra at House no 64, Shakti Enclave, Dhakauli, Zirakpur 140603

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower/guarantors that the below described immovable property/ies mortgaged to the South Indian Bank Ltd.

Table with columns: Name of Property Owner, Description of property, Reserve Price, Earnest Money Deposit (EMD), Bid incremental amount, Encumbrances known to the Bank, Date and time of E-auction

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in web portal of South Indian Bank Ltd. (Secured Creditor) website i.e. www.southindianbank.com.

ENCODE PACKAGING INDIA LIMITED (FORMALLY KNOWN AS NOVA PUBLICATIONS INDIA LIMITED) Regd. Office- D-82, FOCAL POINT EXTENSION JALANDHAR CITY PUNJAB.

Table: Extract of un-audited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2023 (Rs. in Lakhs). Columns: Particulars, Quarter Ended 31-12-2023, 30-09-2023, 31-12-2022, 31-12-2021, 31-03-2023

Note: a) The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2023. Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

SARUP INDUSTRIES LIMITED Web: www.sarupindustries.com, E-mail: shareholders@bawastl.com, Ph: 0181-5021037

Table: Extract of the Un-Audited Financial Results For the Quarter Ended 31st Dec 2023 (Rs. in Lakhs). Columns: Particulars, Quarter Ended 31.12.2023, 30.09.2023, 31.12.2022, 31.12.2021, 31.03.2023

a) The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

GIC HOUSING FINANCE LTD. Regd. Office :National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai 400020

REF.: POSSESSION NOTICE UNDER SUB-RULE (1) OF RULE 8 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

WHEREAS the undersigned being the authorized officer of GICHFL, pursuant to the demand notice issued on its respective dates as given below, under section 13(2) of SARFAESI Act 2002 calling upon you/Borrowers, under the named, to pay outstanding dues within 60 days from the date of receipt of the respective notice.

Table with columns: Sr. No., Loan A/c No., Name Borrower, Description of the mortgaged property, Date of Demand Notice Sent, Amount as per Demand Notice, Date of Symbolic Possession

FURTHER, to this notice, the Borrower are hereby called upon to hand over vacant and peaceful possession of the respective properties to GICHFL within 7 days from the date of this notice, else the undersigned shall be constrained to proceed to take SYMBOLIC POSSESSION of the above properties forcibly and/or shall proceed to sale the above said properties after a period of 30 days from the date here of by adopting the methods provided under SARFAESI Act 2002 and rules thereto.

Date : 16.02.2024 Place : Ludhiana For GIC Housing Finance Ltd. Sd/- Authorised Officer

punjab national bank CIRCLE SASTRA MOGA Together for the better

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in Exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice under Section 13(2) of SARFAESI Act 2002

Table with columns: Name of the Branch, Description of the Property Mortgaged, Date of Demand Notice, Date of Possession, Amount Outstanding

SEL MANUFACTURING COMPANY LIMITED Regd. Office: 274, Dhandari Khurd G.T. Road Ludhiana- 141014

Table: Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended December 31, 2023 (Rs. in Lakhs). Columns: Particulars, Unaudited Quarter Ended 31/12/2023, Unaudited Quarter Ended 30/09/2023, Unaudited Quarter Ended 31/12/2022, Unaudited Year to date 31/12/2023, Unaudited Year to date 31/12/2022, Audited Year Ended 31/03/2023

NOTES: 1. The unaudited consolidated financial statements for the quarter ended on December 31, 2023 and year to date from April 01, 2023 to December 31, 2023 have been taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2024.

2. (a) Pursuant to the Corporate Insolvency Resolution Process, the Banks and financial institutions have not taken appropriate action regarding the declassification of the parent company under the list of Defaulters in the records of RBI, rating agencies, Central Fraud Registry, ECGC, non-cooperative borrower, etc.

2 (d) The Parent Company has not repaid the quarterly installment due on 30th September, 2023 & 31st December, 2023 amounting to Rs. 1,802 lakhs and also has not paid the monthly interest due for the period July 2023 to December 2023 amounting to Rs. 2,937.51 lakhs.

3. The shareholders of the Parent Company have passed the resolution regarding the Initiation of Corporate Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in its Extra Ordinary General Meeting held on 13th October, 2023.

4. As part of the Resolution Plan, the non-interest bearing secured loan shall be repaid to the financial creditors from the proceeds of the sale of the Identified Assets. All of the Identified Assets have been sold and the loan has been repaid.

5. The Company has only one Reportable Segment i.e. Textiles, hence Segment Reporting is not applicable. 6. The Directorate of Enforcement carried out search & seizure action at the registered office of the parent company on 12th January 2024 under section 17 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003).

9. The company has received a notice for imposition of fine amounting to Rs. 2.46 lakhs from the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited regarding non-compliance of Regulation 21(2) of SEBI(LODR) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") for non-composition of Risk Management Committee. However, the company has reconstituted the Risk Management Committee and complied with the provisions of Regulation 21(2) of the said regulations. The company has filed the waiver application for the fine imposed.

11. Figures relating to the previous period/year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary, to correspond with the current period/year's disclosures.

Key Standalone financial information is given below: (Rs. In Lakhs) Table with columns: Particulars, Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended December 31, 2023

Table: STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DEC. 2023 (Rs. in Lakhs). Columns: PARTICULARS, Quarter Ended 31.12.2023, Quarter Ended 30.09.2023, Quarter Ended 31.12.2022, Quarter Ended 31.12.2021, Year Ended 31.12.2023, Quarter Ended 31.12.2023, Quarter Ended 30.09.2023, Quarter Ended 31.12.2022, Quarter Ended 31.12.2021, Year Ended 31.03.2023

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31st December 2023 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

THE BUSINESS DAILY. FINANCIAL EXPRESS FOR DAILY BUSINESS. financialexpress.com

Ind-Swift Ltd.
 Regd. Off.: 781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002.
 CIN.No. L24230CH1986PLC006897
 Ph. No. 0172-263871/4680800 Fax No. 0172-2652242/2655406.
 E-mail: corporate@indswift.com Website: www.indswifttd.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT
 Notice is hereby given to the Members of Ind-Swift Limited (the Company), pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended (Management and Administration Rules) read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 3/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th December 2022 and 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations) and other applicable provisions of the Act, Rules, Circulars and Notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the approval of members of the company is being sought for the following ordinary resolution by way of postal ballot by voting through electronic means only (remote e-voting):

1. To approve the sale of equity shares of Ind-Swift Laboratories Limited as a Material Related Party Transaction

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement on Thursday, 15th February 2024 to all Members of the Company, who have registered their e-mail address with the Company or with their Depository Participant as on Friday, 9th February, 2024 i.e. the cut-off date. The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.indswifttd.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, Members can vote only through the remote e-voting process. Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 9th February, 2024 will be considered for the purpose of e-voting and voting rights shall be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the shareholders as on that date. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information purpose only.

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company is providing to its members facility to cast their vote by electronic means (e-voting) on the resolution set forth in the notice of Postal ballot. The e-voting period commences on Saturday, 17th February, 2024 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Sunday, 18th March, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

Process for those members whose e-mail IDs are not registered with the DPs/RTA for procuring User ID and password and registration of email IDs for e-voting for the resolutions set out in the Postal ballot notice-

a. In case shares are held in physical form- Register/update the details in prescribed form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents of the Company, Alankit Assignments Limited at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055 or through email at kycupdate@alankit.com. Member may download the prescribed forms from the Company's website at- http://www.indswifttd.com/images/shareholder-services.pdf.

b. In case shares are held in demat form- Register/update the details in your demat account, as per process advised by your Depository Participant (DP). The Company has appointed Sh. Vishal Arora (Membership No. 4566), Practicing Company Secretary to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any other person authorized by the Chairman, and the results of the Postal Ballot will be announced not later than 48 hours from the conclusion of the e-voting. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be communicated in the manner provided in the Notice of Postal Ballot.

In case of any query/ grievance(s) connected with the electronic voting, members may please refer to the Frequently Asked Question (FAQ) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievances can be addressed to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or email id companysec@indswift.com.

Place: Chandigarh
 Date: 15/02/2024

For IND-SWIFT LIMITED
 Ginny Uppal
 Company Secretary

पंचायत सामुदायिक केन्द्र भलाख
 विकास खण्ड इन्दौरा तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा हि०प्र० - 176403

प्रतिनिधि प्रस्ताव सं. : 06 निविदा सूचना दिनांक : 05.02.2024

विषय : वर्ष 2024-25 के मटीरियल की कोटेशन बारे।
 प्रधान महोदय जी ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत भलाख में करवाए जाने वाले विभिन्न मट्टों के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए क्रेसर रेत, लोकल रेत, क्रेसर बजरी 10एमएम, 20एमएम, 40एमएम, 60एमएम, 63एमएम लोकल बजरी, सरिया, टाइल्स, आरसीसी पाईप, क्रेट वायर, पत्थर, ईट, मिक्सचर मशीन प्रति दिन, वाटर टैंक, शटरिंग प्रति फुट, जे०सी०बी० प्रति घंटा व अन्य पंचायत में उपयोग को जाने वाली वस्तुएं आदि के लिए जो भी फर्म/ व्यक्ति इच्छुक है दिनांक 21.02.2024 तक अपनी कोटेशन सील बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से या पंचायत घर में स्वयं जमा करवाए और लिफाफे के बाहर आवेदक का नाम व फोन नंबर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए, भरे हुये रेट जीएसटी सहित हों जीएसटी अलग से देय नहीं होगा। एक ही दर को दो निविदायें होने पर पंचायत किसी भी निविदाकार को सामग्री को सप्लाई किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा, सामग्री पंचायत में यहाँ कार्य स्थल होगा वहाँ पहुँचानी होगी, यदि मटीरियल की गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती है या समय पर कार्यस्थल परी नहीं पहुँचाया जाता है और जिस कारण कार्य में व्यवधान पैदा होता/ होते है तो आपूर्तिकर्ता को पंचायत द्वारा बिना नोटिस दिये किसी भी समय निविदा का रद्द करने का अधिकार होगा, Vendor के पास जीएसटी नंबर व TIN No. होना जरूरी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पंचायत रद्द कर सकती है। और फाइनल पेमेंट तकनीकी मूल्यांकन उपरत ही को जाएगी तथा कार्य में जितनी मात्रा में मटीरियल मूल्यांकन उपरत निकलेगा उतने को ही राशि देय होगी अतिरिक्त अदायगी हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन दिनांक 22.02.2024 को पंचायत बैठक में दोपहर 12:00 बजे पंचायत द्वारा गठित पंचायत पदाधिकारियों को कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत भलाख
 विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि०प्र०

पंचायत सामुदायिक केन्द्र घेठा
 विकास खण्ड इन्दौरा तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा हि०प्र० - 176403

प्रतिनिधि प्रस्ताव सं. : 06 निविदा सूचना दिनांक : 12.02.2024

विषय : वर्ष 2024-25 के मटीरियल की कोटेशन बारे।
 प्रधान महोदय जी ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत घेठा में करवाए जाने वाले विभिन्न मट्टों के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए क्रेसर रेत, लोकल रेत, क्रेसर बजरी 10एमएम, 20एमएम, 40एमएम, 60एमएम, 63एमएम लोकल बजरी, सरिया, टाइल्स, आरसीसी पाईप, क्रेट वायर, पत्थर, ईट, मिक्सचर मशीन प्रति दिन, वाटर टैंक, शटरिंग प्रति फुट, जे०सी०बी० प्रति घंटा व अन्य पंचायत में उपयोग को जाने वाली वस्तुएं आदि के लिए जो भी फर्म/ व्यक्ति इच्छुक है दिनांक 23.02.2024 तक अपनी कोटेशन सील बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से या पंचायत घर में स्वयं जमा करवाए और लिफाफे के बाहर आवेदक का नाम व फोन नंबर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए, भरे हुये रेट जीएसटी सहित हों जीएसटी अलग से देय नहीं होगा। एक ही दर को दो निविदायें होने पर पंचायत किसी भी निविदाकार को सामग्री को सप्लाई किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा, सामग्री पंचायत में यहाँ कार्य स्थल होगा वहाँ पहुँचानी होगी, यदि मटीरियल की गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती है या समय पर कार्यस्थल परी नहीं पहुँचाया जाता है और जिस कारण कार्य में व्यवधान पैदा होता/ होते है तो आपूर्तिकर्ता को पंचायत द्वारा बिना नोटिस दिये किसी भी समय निविदा का रद्द करने का अधिकार होगा, Vendor के पास जीएसटी नंबर व TIN No. होना जरूरी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पंचायत रद्द कर सकती है। और फाइनल पेमेंट तकनीकी मूल्यांकन उपरत ही को जाएगी तथा कार्य में जितनी मात्रा में मटीरियल मूल्यांकन उपरत निकलेगा उतने को ही राशि देय होगी अतिरिक्त अदायगी हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन दिनांक 24.02.2024 को पंचायत बैठक में दोपहर 12:00 बजे पंचायत द्वारा गठित पंचायत पदाधिकारियों को कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत घेठा
 विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि०प्र०

IndusInd Bank
 पंजीकृत कार्यालय: इंडसइंड बैंक लिमिटेड, 2401 जनरल धिमेय्या रोड (छावनी), पुणे - 411 001, भारत।
 अंचल कार्यालय: फाइनेशियल रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकेस्ट्रक्चरिंग ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

सरफसा आधानयम 2002 के तहत नालामा विक्री सूचना

प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पंढित वित्तीय समर्थियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति व्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों की विक्री के लिए विक्री सूचना। एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी/गारंटियों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति का भौतिक कब्जा ऋणी/गारंटियों/बंधककर्ता से प्रतिभूति ऋणदाता को देय नीचे वर्णित अनुसार बैंक को बकाया राशि और आगामी व्याज, लागत व खर्च को वसूली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है", "वहाँ जो कुछ भी/जुड़ है" और "बिना संसाधन के आधार" पर 12 मार्च, 2024 को बेचने के अधिकार के साथ लिया है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की विक्री वेब पोर्टल www.bankauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा आयोजित की जाएगी।

खाते/बंधककर्ता/गारंटियों के नाम	कुल देयताएं	संपत्ति के निरीक्षण का तिथि/समय
मै. गुप्ता सेल्स, श्री आशीष कुमार, श्रीमती पूजा बंसल	1,75,92,727.84 रूपए जो 30.04.2023 को है, के साथ 01.05.2023 से उस पर आगामी व्याज और लागत, प्रभार और खर्च	08.03.2024 सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक

लॉट नं.	संपत्तियों की सारणी	आरंभिक मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बाला जमा करने की अंतिम तिथि
1.	खसरा नंबर 54/225 मिन (0-7), खेत नंबर और खात नंबर 471/712, सेल डोड नंबर 457 दिनांक 27/05/2014, पीडब्ल्यूडी रेट हाउस के पास, राजेंद्र कॉलोनी, उद्यान मंडी, तहसील और जिला जी.द, हरियाणा क्षेत्रकतः 210 वर्ग यार्ड में स्थित आवासिय संपत्ति।	32,54,000/- रु. 3,26,000/- रु. 50,000/- रु.	12.03.2024 दो. 12 बजे से अप. 12 बजे तक	11.03.2024 अप. 5:00 बजे तक

आधिकृत अधिकार का नाम और संपर्क विवरण - श्री नितान महाजन, मोबाइल नंबर 9717375920, ई-मेल आईडी: Nitin.Mahajan@indusind.com

नियम और शर्तः 1. इच्छुक बोलदाता अपने ईमेल/डिजिटल विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टल: <https://bankauctions.com> पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से (युजर आईडी और पासवर्ड <https://bankauctions.com> के साथ नाम दर्ज करके मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईमेल/डिजिटल विवरण खाते में एनईएसटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी: 00053564604005 IFSC Code - INDB0000005 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले शाम 5:00 बजे तक सनड्राई अकाउंट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड खाते में की जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईमेल/डिजिटल विवरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सांख्यिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि/क्याभार कर बकाया, यदि कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलदाताओं को ऋण भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पुरालाभ करने चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। 3. इच्छुक बोलदाता जिन्होंने ईमेल/डिजिटल जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाए, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हेल्पलाइन नंबर 0124-4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर +91-7080804466, ईमेल आईडी: support@bankauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निष्पत्ति अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankauctions.com देखें।

सरफसा आधानयम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत सावाधिक 15 दिनों का विक्री सूचना ऋणी/गारंटियों/बंधककर्ता को ई-नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक व्याज तथा अनुभूति खर्च को अदायगी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ विक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी, व्याज व लागत के साथ वसूल की जाएगी तिथि: 16.02.2024 स्थान: जी.द (हरियाणा) प्राधिकृत अधिकारी, (इंडसइंड बैंक लि.)

IndusInd Bank
 पंजीकृत कार्यालय: इंडसइंड बैंक लिमिटेड, 2401 जनरल धिमेय्या रोड (छावनी), पुणे - 411 001, भारत।
 अंचल कार्यालय: फाइनेशियल रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकेस्ट्रक्चरिंग ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

सरफसा आधानयम 2002 के तहत नालामा विक्री सूचना

प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पंढित वित्तीय समर्थियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति व्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों की विक्री के लिए विक्री सूचना। एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी/गारंटियों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति का भौतिक कब्जा ऋणी/गारंटियों/बंधककर्ता से प्रतिभूति ऋणदाता को देय नीचे वर्णित अनुसार बैंक को बकाया राशि और आगामी व्याज, लागत व खर्च को वसूली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है", "वहाँ जो कुछ भी/जुड़ है" और "बिना संसाधन के आधार" पर 12 मार्च, 2024 को बेचने के अधिकार के साथ लिया है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की विक्री वेब पोर्टल www.bankauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा आयोजित की जाएगी।


खाते/बंधककर्ता/गारंटियों के नाम	कुल देयताएं	संपत्ति के निरीक्षण का तिथि/समय
मै. गुप्ता सेल्स, श्री आशीष कुमार, श्रीमती पूजा बंसल	1,75,92,727.84 रूपए जो 30.04.2023 को है, के साथ 01.05.2023 से उस पर आगामी व्याज और लागत, प्रभार और खर्च	08.03.2024 सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक

लॉट नं.	संपत्तियों की सारणी	आरंभिक मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बाला जमा करने की अंतिम तिथि
1.	पुष्पनगर, पुराना हासा रोड के पीछे, लंडमार्क- साई मादर के पास, जाद, हरियाणा में स्थित संपत्ति नं. 72/31, रकबा 780 वर्ग यार्ड अथवा 7020 वर्ग फुट।	22,10,000/- रु. 2,21,000/- रु. 50,000/- रु.	12.03.2024 दो. 12 बजे से अप. 5:00 बजे तक	11.03.2024 अप. 5:00 बजे तक

आधिकृत अधिकार का नाम और संपर्क विवरण - श्री नितान महाजन, मोबाइल नंबर 9717375920, ई-मेल आईडी: Nitin.Mahajan@indusind.com

नियम और शर्तः 1. इच्छुक बोलदाता अपने ईमेल/डिजिटल विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टल: <https://bankauctions.com> पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से (युजर आईडी और पासवर्ड <https://bankauctions.com> के साथ नाम दर्ज करके मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईमेल/डिजिटल विवरण खाते में एनईएसटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी: 00053564604005 IFSC Code - INDB0000005 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले शाम 5:00 बजे तक सनड्राई अकाउंट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड खाते में की जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईमेल/डिजिटल विवरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सांख्यिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि/क्याभार कर बकाया, यदि कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलदाताओं को ऋण भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पुरालाभ करने चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। 3. इच्छुक बोलदाता जिन्होंने ईमेल/डिजिटल जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाए, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हेल्पलाइन नंबर 0124-4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर +91-7080804466, ईमेल आईडी: support@bankauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निष्पत्ति अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankauctions.com देखें।

सरफसा आधानयम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत सावाधिक 15 दिनों का विक्री सूचना ऋणी/गारंटियों/बंधककर्ता को ई-नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक व्याज तथा अनुभूति खर्च को अदायगी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ विक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी, व्याज व लागत के साथ वसूल की जाएगी तिथि: 16.02.2024 स्थान: जी.द (हरियाणा) प्राधिकृत अधिकारी, (इंडसइंड बैंक लि.)



सावधान रहें!

QR codes स्कैनिंग द्वारा भुगतान करते समय सावधानी बरतें। ऑनलाइन लोन ऐप्स और शीघ्र जीतने वाली लॉटरी योजनाओं से सावधान रहें।


ऐसी पेशकश करने वाली लिंक से सावधान रहें: अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स फर्जी लॉटरी योजनाएं

अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/dp> पर जाएं

जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/dp> पर जाएं

अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/dp> पर जाएं

डिजीसाथी, डिजिटल भुगतान विकल्पों से संबंधित जानकारी पर स्वचालित प्रतिक्रियाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: 1800-891-3333; संक्षिप्त कोड: 14431; वेबसाइट: www.digisaathi.info




दिनांक 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त अवधि के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(ईसीएस को छोड़कर रु. करोड़ों में)


क्र. सं.	विवरण	कैसेरिडिटेड			
		को समाप्त तिमाही 31.12.2023 अर्न्केक्षित	31.12.2022 अर्न्केक्षित	को समाप्त तिमाही 31.12.2023 अर्न्केक्षित	31.12.2022 अर्न्केक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	143.42	116.90	406.29	399.87
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशेष या असाधारण मटी से पूर्व)	7.78	4.54	27.17	18.20
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष या असाधारण मटी के बाद)	7.78	4.54	27.17	18.20
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष या असाधारण मटी के बाद)	6.85	3.29	17.97	15.51
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	5.71	(0.22)	16.36	10.14
6	दृश्यवटी शेयर पूंजी	13.37	13.37	13.37	13.37
7	आरक्षित और अधिशेष	-	-	-	-
8	आप प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (चार्षिक नहीं)	5.13	2.46	13.44	11.60
	मूल: 5.13	2.46	13.44	11.60	19.88
	दनुकृत: 5.13	2.46	13.44	11.60	19.88

क्र. सं.	विवरण	स्टैट्यूटरी			
		को समाप्त तिमाही 31.12.2023 अर्न्केक्षित	31.12.2022 अर्न्केक्षित	को समाप्त तिमाही 31.12.2023 अर्न्केक्षित	31.12.2022 अर्न्केक्षित
1	कारोबार	131.23	109.45	400.05	389.13
2	कर से पूर्व लाभ	9.12	3.86	27.18	24.12
3	कर के बाद लाभ	8.19	2.61	17.98	21.43

टिप्पणी:- उपरोक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अर्न्केक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप के सार को ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और 14 फरवरी, 2024 को आयोजित निर्देशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया है। संपूर्ण वित्तीय परिणाम बीएसई, एनएसई और कंपनी की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.venusremedies.com पर उपलब्ध है।



Introducing a Dose of goodness for a healthier you



VENUS REMEDIES LIMITED
 Regd. Office: S.C.O. 857, 2nd Floor, C.No. 10, N.A.C. Manimajra, Chandigarh
 CIN: L24230CH1986PLC009705
 E-mail: compliance@venusremedies.com
 Website: www.venusremedies.com

Date : 14.02.2024

www.readwhere.com